

SSC GD Constable (18- February-2019) Shift 1 (Hindi)



1. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर _____ होती है।

- A. खुशी
- B. उदासी
- C. दुखी
- D. हँसी

Ans. B

2. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।

अपमान

- A. अदाकार
- B. उपकार
- C. कुम्भकार
- D. तिरस्कार

Ans. D

3. दिए गए शब्द का विलोम चुनें।

सन्यास

- A. सेवक
- B. गृहस्थ
- C. अतिथि
- D. बाहर

Ans. B

4. दिए गए शब्द का विलोम चुनें।

उग्र

- A. अग्रज
- B. अग्र
- C. लड़ाई
- D. शांत

Ans. D

5. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

फल और सब्जियाँ इतने महँगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है

- A. इतने महँगा
- B. भाव पूछने में डर लगता है।
- C. फल और सब्जियाँ
- D. हो गए कि

Ans. A

6. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है।

- A. मनुष्य जब
- B. किसी के कष्ट को
- C. तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है।
- D. दूर करने का संकल्प करता है।

Ans. C

7. दिये गये वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए।

जिसका वर्णन न हो सके

- A. शोभनीय
- B. माणिक्य
- C. हिरण्य
- D. अवर्णनीय

Ans. D

8. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 'तिल का ताड़ बनाना' मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।

- A. छोटी सी बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना
- B. तिल को ताड़ में बदलना
- C. किसी बात को अधिक महत्व न देना
- D. पेड़ पर तिल का आना

Ans. A

9. दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।

विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका समाजिक दायित्व बड़ा होती है।

- A. इसलिए उनका
- B. बड़ा होती है।
- C. विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं
- D. समाजिक दायित्व

Ans. B

10. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

गुंडों के हाथों में लाठियाँ उसके _____ फूल गये।

- A. फेफड़े
- B. हाथ-पैर
- C. मुँह
- D. गाल

Ans. B

11. दिये गये वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए।

जहाँ जाया न जा सके

- A. सुगम्य
- B. सगम्य
- C. कुगम्य
- D. अगम्य

Ans. D

12. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

मुझे समुद्र के _____ बैठना अच्छा लगता है।

- A. किनारे
- B. अंदर
- C. ऊपर
- D. नीचे

Ans. A

13. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।

- A. चिड़ियाघर
- B. चिड़ीयाघर
- C. चिड़ियाघर
- D. चीड़ियाघर

Ans. C

14. रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।

दादी जी ने _____ को बुलाया और पौधे लगवाए।

- A. दुकानदार
- B. माली
- C. कुम्भकार
- D. दर्जी

Ans. B

15. निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 'तीसमार खाँ बनना' मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।

- A. अपने का शूरवीर समझना
- B. तीस लोगों को मारना
- C. अपने का अभिनेता समझना
- D. अपने को बुद्धिमान समझना

Ans. A

दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायत से रिक्त स्थानों भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

सोने जैसी बहुमूल्य धातु को ____ (1) में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट ____ (2) न हो जाए या वह जलकर भस्म न बन जाए। इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह ____ (3) होकर बाहर निकलने के लिए अपने ____ (4) में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी चाहिए। जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रवाह को रोक कर संयम का बाँध बना लेने पर जीवन ____ (5) कई गुना बढ़ जाती है।

16. गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान (1) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. आग
- B. हवा
- C. पानी
- D. पृथ्वी

Ans. A

17. गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान (2) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. हठ
- B. मिल
- C. अलग
- D. वर्षा

Ans. C

18. गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान (3) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. शुद्ध
- B. बुरा
- C. अशुद्ध
- D. ठंडा

Ans. A

19. गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान (4) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. हृदय
- B. सिर
- C. हाथ
- D. पैर

Ans. A

20. गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान (5) के लिए उपयुक्त शब्द होगा-

- A. रोग
- B. मृत्यु
- C. भोग
- D. शक्ति

Ans. D

21. सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।

- A. सज्जनता
- B. सजजनता
- C. सज्जन्ता
- D. सज्जता

Ans. A

22. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गयी।

- A. मन प्रसन्न हो गया।
- B. मन प्रसन्न हो गए।
- C. मनो प्रसन्न हो गए।
- D. मन प्रसन्न हो गयीं।

Ans. A

23. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

- A. अपने देश पर बना कपड़ा
- B. अपने देश में बना कपड़ा
- C. अपने देश पर बना कपड़ों
- D. अपना देश में बना कपड़ा

Ans. B

24. दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें।

ध्वज

- A. पताका
- B. डंडा
- C. कपड़ा
- D. बयार

Ans. A

25. दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।

व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है।

- A. अपुन अच्छाइयाँ खो देता है।
- B. अपनों अच्छाइयाँ खो देता है।
- C. अपनी अच्छाइयाँ खो देता है।
- D. अपना अच्छाइयाँ खो देता है।

Ans. C



Gradeup SSC & Railways Super Superscription

Features:

1. 18+ Structured Courses for SSC & Railways Exams
2. 550+ Mock Test for SSC & Railways Exams
3. Separate Batches in Hindi & English
4. Mock Test are available in Hindi and English
5. Available on Mobile and Desktop

Gradeup Super Subscription, Enroll Now